

विद्याभवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

विषय-हिंदी व्याकरण
वर्ग-पंचम

दिनांक-04/06/2020
वर्ग-शिक्षिका— नीतू कुमारी

पाठ-3

सुप्रभात बच्चों,

पिछली कक्षा में आपको लिंग सम्बंधी विशेष बातें बतायी गयी। आज आपको उसी पाठ से लिंग बदलने का नियम बताया जाएगा। जो इस प्रकार है:—

*पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे:— हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि

*दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे:— सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि।

*धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे:— सोना, ताँबा, पीतल, आदि।

*शहरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे:— आगरा, भोपाल, जयपुर, शिमला आदि।

*ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे:— बुध, मंगल, शनि आदि। ('पृथ्वी' को छोड़कर)

*शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे:— हाथ, पैर, नाक, कान आदि।

*शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे:— गर्दन, जीभ, आँख, कलाई आदि।

*भाषा, बोली, और लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।

*कुछ संज्ञा शब्द स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे:— राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिव, इंजीनीयर, खिलाड़ी आदि।

लिंग बदलने के नियम

'आ' लगाकर		'ई' लगाकर	
पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
छात्र	छात्रा	बेटा	बेटी
सुत	सुता	हिरण	हिरणी
आचार्य	आचार्य	चाचा	चाची
वृद्ध	वृद्धा	घोड़ा	घोड़ी
महोदय	महोदया	मामा	मामी
बाल	बाला	पुत्र	पुत्री

'इया' लगाकर		'इन' लगाकर	
पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
गुड़डा	गुड़िया	नाग	नागिन
चिड़ा	चिड़िया	माली	मालिन
लोटा	लुटिया	साँप	साँपिन
डिब्बा	डिबिया	सुनार	सुनारिन
बूढ़ा	बुढ़िया	लुहार	लुहारिन
चूहा	चुहिया	बाघ	बाघिन

'आइन' लगाकर		'नी' लगाकर	
पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
लाला	ललाइन	ऊँट	ऊँटनी
हलवाई	हलवाईन	सरदार	सरदारनी
चौधरी	चौधराइन	शेर	शेरनी

पंडित पंडिताइन मोर मोरनी
ठाकुर पंडाइन सियार सियारनी

बच्चों दी गयी अध्ययन-सामग्री पढ़ें तथा समझने का प्रयास करें और वर्ग -कार्य कॉपी में लिखें।

गृहकार्य :-

निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए:-

(क) गायक _____ (ख) ग्वाला _____
(ग) पिता _____ (घ) दादी _____
(ङ) हिरणी _____ (च) बूढ़ा _____
(छ) बंदर _____ (ज) चाची _____
(झ) सेविका _____ (ञ) नाग _____

सही उत्तर चुनिए:-

(क) इनमें से पुल्लिंग शब्द है:-

पृथ्वी() हिमालय() गंगा()

(ख) इनमें स्त्रीलिंग शब्द है-

देवी() माली() कवि()

(ग) इस शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द समान होता है-

राष्ट्रपति() भाई() वर()